



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1946 (श10)

(सं० पटना 987) पटना, बुधवार, 9 अक्टूबर 2024

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर 2024

अधिसूचना संख्या 05/2024-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 455 दिनांक 9 अक्टूबर 2024—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017), की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची 1 -2.5% के पश्चात, सूची 1 में, मद संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(233) ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन

(234) ओसिमेरटिनिब

(235) डुरवालुमैब”;

(ख) अनुसूची II में-6%, क्रम संख्या 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“32ग	1905 90 30	एक्सट्रूडेडया विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड (एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स के अलावा, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों);
------	------------	---

(ग) अनुसूची III में - 9%, -

- (i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, “एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों” शब्दों के स्थान पर, “एक्सट्रूजनकी प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, एक्सट्रूडेडया विस्तारित उत्पाद, या साल्टेड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 435क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“435क	9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटों के अलावा”;
-------	--	---

(घ) अनुसूची IV में - 14%, क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“210क	9401 20 00	मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें”।
-------	------------	--

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 को लागू होगी ।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड--20) 05)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

9 अक्टूबर 2024

एस० ओ० 455 दिनांक 9 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-20) 05)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th October 2024

Notification No. 05/2024-State Tax (Rate)

S.O. 455, Dated the 9th October 2024—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) after Schedule I-2.5%, in List 1, after item number 232 and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be inserted, namely: -

“(233) Trastuzumab Deruxtecan

(234) Osimertinib

(235) Durvalumab”;

- (b) in Schedule II - 6%, after S. No. 32B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“32C	1905 90 30	Extruded or expanded products, savoury or salted (other than un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion)”;
------	------------	---

- (c) in Schedule III - 9%,-

- (i) against S. No. 16, in column (3), for the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion”, the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion, extruded or expanded products, savoury or salted” shall be substituted;

- (ii) for S. No. 435A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

“435A	9401 [other than 9401 10 00 or 9401 20 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof other than seats of a kind used in aircraft or seats of a kind used for motor vehicles”;
-------	--	---

- (d) in Schedule IV – 14%, after S. No. 210 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“210A	9401 20 00	Seats of a kind used for motor vehicles”.
-------	------------	---

2. This notification shall come into force on the 10th day of October, 2024.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 05)]

By the order of Governor of Bihar,

Sanjay Kumar Singh,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 987+571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>